



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15]

नई दिल्ली, अप्रैल 8—अप्रैल 14, 2012, शनिवार/चैत्र 19—चैत्र 25, 1934

No. 15]

NEW DELHI, APRIL 8—APRIL 14, 2012, SATURDAY/CHAITRA 19—CHAITRA 25, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के पन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चारा उत्पादन का निदर्शन संचालित करने का प्रादेशिक केन्द्र (वर्ग-III और वर्ग-IV पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उसका संबंध चालक के पद से है और चारा उत्पादन का क्षेत्रीय स्टेशन (ट्रेक्टर चालक) भर्ती नियम, 1973 को, और वृहत चारा बीज उत्पादन फार्म पर समूह ग और समूह घ पद भर्ती नियम, 1984 को, जहां तक उसका संबंध ट्रैक्टर चालक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के चारा उत्पादन का प्रादेशिक और निदर्शन केन्द्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हेस्सरघट्टा में चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चारा उत्पादन का प्रादेशिक और निदर्शन केन्द्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हेस्सरघट्टा, बंगलूरू (चालक समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चालक	18* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।					
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक :		
(i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और चालन में वृत्तिक कुशलता के साथ यानीय कलपुरजे का ज्ञान या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से ट्रेक्टर अनुरक्षण और रखरखाव का प्रशिक्षण और भारी मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
वांछनीय		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त फार्म या किसी ख्याति प्राप्त फर्म में ट्रेक्टर, भारी मशीनरी और उपस्कर के अनुरक्षण का अनुभव ।		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
(10)	(11)	
चारा उत्पादन का प्रादेशिक और निदर्शन केन्द्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म में ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड+ग्रेड वेतन 1800 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त फार्म में ट्रेक्टर, भारी मशीनरी और उपस्कर का अनुभव है और जिनके पास भारी यान या ट्रेक्टर चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर भारी यानों का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारकों की सीधी भर्ती द्वारा ।	चारा उत्पादन का प्रादेशिक और निदर्शन केन्द्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म में ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड+ग्रेड वेतन 1800 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त फार्म में ट्रेक्टर, भारी मशीनरी और उपस्कर का अनुभव है और जिनके पास भारी यान या ट्रेक्टर चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर भारी यानों का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारकों की सीधी भर्ती द्वारा ।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	
(12)	(13)	
समूह “ग” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) : जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—		
1. निदेशक या उप सचिव (दाना और चारा)	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
2. निदेशक या फार्म का भारसाधक निदेशक	—सदस्य	
3. अवर सचिव (दाना और चारा)	—सदस्य	

[फा. सं. 37-3/2011-प्रशा.-III (एफएफ)]

डी. बैनर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 9th April, 2012

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Stations for conducting demonstration of forage production (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Driver and the Regional Station on Forage Production (Tractor Driver) Recruitment Rules, 1973 and the Group 'C' and Group 'D' posts at Large Fodder Seed Production Farm, Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the post of Tractor Driver and Vehicle Driving except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for the post of Driver in the Regional Station on Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bengaluru, in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Regional Station on Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm, Hessarghatta, Bengaluru (Driver Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that if it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Driver	18* (2012) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200+ (Grade Pay of Rs. 1900)	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable up to 40 years for departmental candidates) Note 1. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh and Spiti district and

(6)

Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Note 2.— In respect of posts, the appointment of which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) 10th class pass with professional skill in driving with knowledge of vehicular mechanism or training in tractor maintenance and upkeep from any recognized institution and having valid driving licence for driving heavy motor vehicles. Desirable : (ii) Experience in maintenance of tractors, heavy machinery and equipment in a recognised farm or in a firm of repute.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion from Multi Tasking Staff in the Regional Stations for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm with five years regular service in the grade with grade pay of Rs. 1800 and having experience in maintenance of tractors, heavy machinery and equipment in recognized farm and having valid license for driving heavy vehicles or tractors failing which by direct recruitment with valid driving license of heavy vehicles.	By promotion from Multi Tasking Staff in the Regional Stations for Forage Production and Demonstration and Central Fodder Seed Production Farm with five years regular service in the grade with grade pay of Rs. 1800 and having experience in maintenance of tractors, heavy machinery and equipment in a recognised farm and having valid license for driving heavy vehicles or tractors.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Commission is to be consulted in making recruitment	Public Service
(12)	(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :—		Not applicable.
1. Director or Deputy Secretary (Feed and Fodder)	—Chairman	
2. Director or Director in-charge of the Farm	—Member	
3. Under Secretary (Feed and Fodder)	—Member	

[F. No. 37-3/2011-Admn.-III (FF)]
D. BANERJEE, Under Secy.